

प्रेस – नोट

थाना उत्तर पुलिस टीम को मिली बड़ी कामयाबी, अवैध असलाह बनाने की फैक्ट्री चलाते हुए 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, एक दर्जन से अधिक बने हुए तमंचे व भारी संख्या में अवैध शस्त्र बनाने का सामान हुआ बरामद ।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद के कुशल निर्देशन में एवं पुलिस अधीक्षक नगर फिरोजाबाद महोदय, क्षेत्राधिकारी नगर फिरोजाबाद के सफल पर्यवेक्षण में अवैध शस्त्र निर्माण व विक्री के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत थाना उत्तर पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र फैक्ट्री चलाते हुये 02 अभियुक्तगणों को (असलाह बनाकर बेचने वाले तस्करों को) पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गयी है घटनाक्रमानुसार दिनांक05.10.20 को थाना उत्तर पुलिस को द्वारा मुखविर सूचना मिली कि करीब 5-6 दिनों से NS माथुर का किराये का मकान न0 -21 गोपाल नगर शिवाजी मार्ग थाना उत्तर में 4-5 लोग अपने घर में छिपकर अवैध शस्त्र बानकर बेचते हैं इस सूचना पर मैं प्रभारी निरीक्षक उत्तर मय हमराही फोर्स के NS माथुर का किराये का मकान न0 -21 गोपाल नगर शिवाजी मार्ग थाना उत्तर पर पहुंच कर छापेमारी की तो मौके से 02 अभियुक्तगणों को अवैध हथियारों का निर्माण करते हुये समय करीब 21.40 pm बजे पकड लिये तथा 02 अभियुक्त मौके से भाग निकले गिरफ्तार अभियुक्तगणों की जामा तलाशी से अभियुक्तगणों के कब्जे से 06 अदद तंमचा 315 वोर ,04 अदद तंमचा 12 वोर , एक अदद रायफल 315 वोर , एक अदद पिस्टल 32 वोर व अधवने शस्त्र व भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद किये गये हैं पूछताछ में गिरफ्तार किये गये अभियुक्तगणों ने बताया कि वे अपने फरार दोनों साथियों के साथ मिलकर अपने व अपने परिवार का जीविको पार्जन हेतु आर्थिक लाभ के लिये अवैध शस्त्रों का निर्माण कर एक दिन में 4-5 तमंचे/पोनिया आदि बनाकर करीब 4 से 5 हजार रुपये में एटा ,फिरोजाबाद,आगरा,मैनपुरी आस पास के जनपदों में बेचने का काम करते हैं अभियुक्तगणों के विरुद्ध मु0अ0सं0 477/20 धारा 5/25 A Act पंजीकृत कर कार्यवाही की जा रही है तथा फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु सार्थक प्रयास किये जा रहे हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पता—

1. जितेन्द्र कुमार उर्फ पप्पन पुत्र भजनलाल मूल निवासी गांव रेसरा थाना चन्डोस जनपद अलीगढ उम्र 45 वर्ष हाल निवासी सुनील वाल्मिकी का किराये का मकान गली न0 12 मथुरा नगर थाना उत्तर जिला फिरोजाबाद ।
2. चन्द्रकान्त ओझा उर्फ विल्ला पुत्र रामस्वरुप निवासी NS माथुर का किराये का मकान न0 -21 गोपाल नगर शिवाजी मार्ग थाना उत्तर जनपद फिरोजाबाद ।

फरार अभियुक्तों के नाम –

- 1-गुड्डन यादव पुत्र नामालुम नि0 ढोलपुरा थाना लाइनपार जनपद फिरोजाबाद
- 2-गुड्डु पुत्र नामालुम नि0 लेवर कालोनी थाना लाइनपार जनपद फिरोजाबाद

बरामदगी का विवरण –

- 1- 06 अदद तंमचा 315 वोर
- 2-04 अदद तंमचा 12 वोर

3- एक अदद रायफल 315 वोर

4- एक अदद पिस्टल 32 वोर

5- एक अदद अधबना तमंचा

6- अवैध शस्त्र बनाने में प्रयुक्त उपकरण

अभियुक्त चन्द्रकान्त ओझा उर्फ विल्ला पुत्र रामस्वरुप निवासी NS माथुर का किराये का मकान न0 -21 गोपाल नगर शिवाजी मार्ग थाना उत्तर जनपद फिरोजाबाद का आपराधिक इतिहास –

1.मु0अ0सं0 97/2010 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना उत्तर फिरोजाबाद

2.मु0अ0सं0 477/20 धारा 5/25 आर्म्स एक्ट थाना उत्तर फिरोजाबाद

अभियुक्त जितेन्द्र कुमार उर्फ पप्पन पुत्र भजनलाल मूल निवासी गांव रेसरा थाना चन्डोस जनपद अलीगढ उम्र 45 वर्ष हाल निवासी सुनील वाल्मिकी का किराये का मकान गली न0 12 मथुरा नगर थाना उत्तर जिला फिरोजाबाद का आपराधिक इतिहास –

1..मु0अ0सं0 477/20 धारा 5/25 आर्म्स एक्ट थाना उत्तर फिरोजाबाद

गिरफ्तार करने वाली टीम

1.प्र0नि0 अनूप कुमार भारतीय थाना उत्तर फिरो0

2.व0उ0नि0 नरेन्द्र कुमार शर्मा थाना उत्तर फिरोजाबाद

3.उ0नि0 महेन्द्र सिंह, थाना उत्तर फिरोजाबाद

4.उ0नि0 सचिन कुमार, थाना उत्तर, फिरोजाबाद

5.उ0नि0 जय सिंह थाना उत्तर फिरोजाबाद

6.म0उ0नि0 अलवीना खान थाना उत्तर फिरोजाबाद

7.का0 1384 प्रवीन कुमार, थाना उत्तर, फिरोजाबाद

8.का0 836 लव प्रकाश , थाना उत्तर जिला फिरोजाबाद

9.का0 842 नेत्रपाल सिंह थाना उत्तर फिरोजाबाद

10.का0 179 मोहन श्याम थाना उत्तर फिरोजाबाद

11.का- 639 पुष्पेन्द्र सिंह थाना उत्तर फिरोजाबाद

12. का0 665 पंकज शर्मा थाना उत्तर फिरोजाबाद

13.का0 620 तेजवीर सिंह थाना उत्तर फिरोजाबाद ।